



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2018/आषाढ़ 7, 1940

No. 433]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2018/ASHADHA 7, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

**सा.का.नि. 591(अ).**—केन्द्रीय सरकारए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (जल वाहक) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (धोबी) और कांस्टेबल (नाई) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में समूह 'ग' के अनुगामी काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (जल वाहक, सफाई कर्मचारी, रसोइया, धोबी और नाई) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति —  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.**— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

**स्पष्टीकरण.**— इस नियम के प्रयोजन के लिए शेष-1 से निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैं:—

(1) कोड अक्षर शेष, जो निम्नलिखित कृत्य को व्यपदिष्ट करते हैं, द्वारा उपदर्शित निम्नलिखित फैक्टर के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:—

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(2) प्रत्येक फैक्टर के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा कम होती हुई कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:—

(क) कहीं भी सभी सेवाओं के लिए योग्य।

(ख) कहीं भी सभी सेवाओं के लिए योग्य किन्तु क्या, कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) "एस" घटक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय सेवाओं के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमार की छुट्टी के कारण सेवाओं के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.**— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

9. **अधिवर्षिता.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु से आगे सेवा में विस्तार नहीं किया जाएगा।

10. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कांस्टेबल (रसोइया)	1510* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसूचित)	स्तर-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता

## सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।

(6)

18 और 25 वर्ष के बीच

- (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की दशा में पाँच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

## सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

## 1. शैक्षिक अर्हताएं :

- किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन।
- अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में व्यावहारिक विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

## 2. शारीरिक मानक:

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊंचाई	सीना	ऊंचाई	सीना
(i) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 सेन्टीमीटर	80-85 सेन्टीमीटर	157 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(ii) गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कश्मीर और लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165 सेन्टीमीटर	78-83 सेन्टीमीटर	155 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेन्टीमीटर	76-81 सेन्टीमीटर	150 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और गोरखा राज्यक्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेन्टीमीटर	77-82 सेन्टीमीटर	152.5 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(v) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेन्टीमीटर	77-82 सेन्टीमीटर	147.5 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता

## 3. वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती।

**4. चिकित्सा मानक**

(क) दृष्टि: न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी के संहत जानु, सपाट पैर, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। वह अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्त्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

5. शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा, उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<b>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. कांस्टेबल (धोबी)	856* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच 1. (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) 2. (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की दशा में पाँच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)				
<b>1. शैक्षिक अर्हताएं :</b>				
(i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन।				
(ii) अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में व्यावहारिक विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।				
<b>2. शारीरिक मानक:</b>				
	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊंचाई	सीना	ऊंचाई	सीना
(i) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 सेंटीमीटर	80-85 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(ii) गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कश्मीर और लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165 सेंटीमीटर	78-83 सेंटीमीटर	155 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेंटीमीटर	76-81 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और गोरखा राज्यक्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेंटीमीटर	77-82 सेंटीमीटर	152.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(v) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेंटीमीटर	77-82 सेंटीमीटर	147.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
<b>3. वजन:</b> चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती।				
<b>4. चिकित्सा मानक</b>				
<b>(क) दृष्टि:</b> न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।				
<b>(ख)</b> अभ्यर्थी के संतत जानु, सपाट पैर, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।				
<b>5. शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।</b>				

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष	
2. उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	
3. सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कांस्टेबल (नाई)	766* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता

## (6)

18 और 25 वर्ष के बीच

- (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
- (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की दशा में पाँच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

## (7)

## 1. शैक्षिक अर्हताएं :

- किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन।
- अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में व्यावहारिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

## 2. शारीरिक मानक:

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊँचाई	सीना	ऊँचाई	सीना
(i) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 सेंटीमीटर	80-85 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(ii) गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कश्मीर और लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	165 सेंटीमीटर	78-83 सेंटीमीटर	155 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	162.5 सेंटीमीटर	76-81 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और गोरखा राज्यक्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	162.5 सेंटीमीटर	77-82 सेंटीमीटर	152.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(v) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	77-82 सेंटीमीटर	147.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता

3. वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती।

## 4. चिकित्सा मानक

(क) दृष्टि: न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी के संहत जानु, सपाट पैर, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

5. शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष</li> <li>उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> <li>सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
4. कांस्टेबल (जल वाहक)	1359* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता

(6)
<p>18 और 25 वर्ष के बीच।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</li> <li>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की दशा में पाँच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</li> </ol> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)

1. शैक्षिक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन।

(ii) अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में व्यावहारिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

2. शारीरिक मानक:

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊंचाई	सीना	ऊंचाई	सीना
(i) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 सेंटीमीटर	80-85 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(ii) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कश्मीर और लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165 सेंटीमीटर	78-83 सेंटीमीटर	155 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता

(iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेन्टीमीटर	76–81 सेन्टीमीटर	150 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और गोरखा राज्यक्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेन्टीमीटर	77–82 सेन्टीमीटर	152.5 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
(v) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेन्टीमीटर	77–82 सेन्टीमीटर	147.5 सेन्टीमीटर	लागू नहीं होता
<b>3. वजन:</b> चिकित्सा मानको के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती। <b>4. चिकित्सा मानक</b> <b>(क) दृष्टि:</b> न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। <b>(ख)</b> अभ्यर्थी के संहत जानु, सपाट पैर, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए। <b>5. शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।</b>				

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<b>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
5. कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी)	1382* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता

(6)
18 और 25 वर्ष के बीच। 1. (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) 2. (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की दशा में पाँच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

**1. शैक्षिक अर्हताएं :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन।  
(ii) अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में व्यावहारिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

**2. शारीरिक मानक:**

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊंचाई	सीना	ऊंचाई	सीना
(i) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 सेंटीमीटर	80—85 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(ii) गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कश्मीर और लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165 सेंटीमीटर	78—83 सेंटीमीटर	155 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेंटीमीटर	76—81 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और गोरखा राज्यक्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5 सेंटीमीटर	77—82 सेंटीमीटर	152.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
(v) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और वामखंड के उग्रवाद से प्रभावित जिलों से संबंध रखने वाले अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेंटीमीटर	77—82 सेंटीमीटर	147.5 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता

**3. वजन:** चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु का समानुपाती।**4. चिकित्सा मानक**

(क) दृष्टि: न्यूनतम दूर दृष्टि बिना किसी सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने हुए दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी के संहत जानु, सपाट पैर, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

**5. शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अनिवार्यतः उत्तीर्ण।**

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष	
2. उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	
3. सहायक कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	

[फा. सं. I.12012/10/2016—संगठन]

आर.बी.एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक-II)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2018

**G.S.R. 591(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier) and Constable (Safai Karamchhari) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010 and Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Cook), Constable (Washerman) and Constable (Barber) Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Followers cadre of Group 'C' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Constable (Water Carrier, Safai Karamchhari, Cook, Washerman and Barber), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Medical fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

**Explanation.**— SHAPE-I means Medical Category defined as under :-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

S-	Psychological
H-	Hearing
A -	Appendages
P -	Physical capacity
E-	Eye sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

- (a) fit for all duties anywhere;
- (b) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears/eyes;
- (c) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;

(d) temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.

(e) Permanently unfit for duties.

**7. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Ineligibility of non-citizens of India.**—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

**9. Superannuation.**—Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

**10. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**11. Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification of the posts	Level in the pay matrix	Selection or non selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Constable (Cook)	1510* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (21700 - 69100)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.
(6)
Between 18 to 25 years.
1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
2. Relaxable up to five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
<b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.				
(7)				
1. <b>Education qualifications:</b>				
(i) Matriculation from a recognised school or institution;				
(ii) Candidates will have to pass a practical departmental test in the profession or trade.				
2. <b>Physical Standard:</b>				
	For Male		For Female	
	<b><u>Height</u></b>	<b><u>Chest</u></b>	<b><u>Height</u></b>	<b><u>Chest</u></b>
(i) For other States and Union Territories —	170 Centimetres	80-85 Centimetres	157 Centimetres	Not applicable
(ii) Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir —	165 Centimetres	78-83 Centimetres	155 Centimetres	Not applicable
(iii) The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribal —	162.5 Centimetres	76-81 Centimetres	150 Centimetres	Not applicable
(iv) Minimum Height for candidates falling in the categories of North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial —	162.5 Centimetres	77-82 Centimetres	152.5 Centimetres	Not applicable
(v) The minimum height for all Scheduled Tribe candidates hailing from North-Eastern — States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left Wing Extremism affected districts.	160 Centimetres	77-82 Centimetres	147.5 Centimetres	Not applicable
3. <b>Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards.				
4. <b>Medical Standards :</b>				
(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses;				
(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess high colour vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.				
5. Must qualify the physical efficiency test and written test.				
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(8)	(9)	(10)		
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made	
(11)	
Not applicable.	
If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-</b> 1. Commandant, - Chairman Indo-Tibetan Border Police Force 2. Deputy Commandant, - Member Indo-Tibetan Border Police Force 3. Assistant Commandant, - Member Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Constable (Washerman)	856* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (21700 - 69100)	Not applicable.

(6)
<p>Between 18 to 25 years.</p> <p>1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>2. Relaxable up to five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).</p>

(7)				
<b>1. Education qualifications:-</b> (i) Matriculation from a recognised school or institution; (ii) Candidates will have to pass a practical departmental test in the profession.				
<b>2. Physical Standard:</b>				
	For Male		For Female	
	<b>Height</b>	<b>Chest</b>	<b>Height</b>	<b>Chest</b>
(i) For other States and Union territories —	170 Centimetres	80-85 Centimetres	157 Centimetres	Not applicable
(ii) Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir —	165 Centimetres	78-83 Centimetres	155 Centimetres	Not applicable
(iii) The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribal —	162.5 Centimetres	76-81 Centimetres	150 Centimetres	Not applicable
(iv) Minimum Height for candidates falling in the categories of North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial —	162.5 Centimetres	77-82 Centimetres	152.5 Centimetres	Not applicable
(v) The minimum height for all Scheduled Tribe candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left Wing Extremism affected districts —	160 Centimetres	77-82 Centimetres	147.5 Centimetres	Not applicable
<b>3. Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards.				
<b>4. Medical Standards :</b>				
(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses.				
(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess high colour vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.				
<b>5. Must qualify the physical efficiency test and written test.</b>				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-</b> 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Barber)	766* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (21700 - 69100)	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years.
1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
2. Relaxable up to five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
<b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)

<b>1. Education qualifications :</b>				
(i) Matriculation from a recognised school or institution;				
(ii) Candidates will have to pass a practical departmental test in the profession.				
<b>2. Physical Standard:</b>	For Male		For Female	
	<u>Height</u>	<u>Chest</u>	<u>Height</u>	<u>Chest</u>
(i) For other States and Union Territories —	170 Centimetres	80-85 Centimetres	157 Centimetres	Not applicable
(ii) Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir —	165 Centimetres	78-83 Centimetres	155 Centimetres	Not applicable
(iii) The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribal —	162.5 Centimetres	76-81 Centimetres	150 Centimetres	Not applicable
(iv) Minimum Height for candidates falling in the categories of North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha territorial	162.5 Centimetres	77-82 Centimetres	152.5 Centimetres	Not applicable
(v) The minimum height for all Scheduled Tribe candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left Wing Extremism affected districts —	160 Centimetres	77-82 Centimetres	147.5 Centimetres	Not applicable
<b>3. Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards.				
<b>4. Medical Standards :</b>				
(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses.				

(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess high colour vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

5. Must qualify the physical efficiency test and written test.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-</b>	Not applicable.
1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Chairman
2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member
3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Constable (Water Carrier)	1359* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non- Ministerial).	Level 3 (21700 - 69100)	Not applicable.

(6)
Between 18 to 25 years.
1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
2. Relaxable up to five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
<b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)				
1. Education qualifications :				
(i) Matriculation from a recognised school or institution;				
(ii) Candidates will have to pass a practical departmental test in the profession.				
2. Physical Standard:		For Male		For Female
	<u>Height</u>	<u>Chest</u>	<u>Height</u>	<u>Chest</u>
(i) For other States and Union Territories —	170	80-85	157	Not
	Centimetres	Centimetres	Centimetres	applicable

(ii) Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir —	165 Centimetres	78-83 Centimetres	155 Centimetres	Not applicable
(iii) The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribal —	162.5 Centimetres	76-81 Centimetres	150 Centimetres	Not applicable
(iv) Minimum Height for candidates falling in the categories of North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial —	162.5 Centimetres	77-82 Centimetres	152.5 Centimetres	Not applicable
(v) The minimum height for all Scheduled Tribe candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left Wing Extremism affected districts —	160 Centimetres	77-82 Centimetres	147.5 Centimetres	Not applicable
3. <b>Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards.				
4. <b>Medical Standards :</b>				
(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses.				
(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess high colour vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.				
5. Must qualify the physical efficiency test and written test.				

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-</b>	Not applicable.
1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Chairman
2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member
3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Constable (Safai Karamchari)	1382* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 3 (21700 - 69100)	Not applicable.

(6)

Between 18 to 25 years.

1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
2. Relaxable up to five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)

1. **Education qualifications:**

- (i) Matriculation from a recognised school or institution;
- (ii) Candidates will have to pass a practical departmental test in the profession.

2. **Physical Standard:**

	For Male	<b><u>Chest</u></b>	For Female	<b><u>Chest</u></b>
(i) For other States and Union Territories —	170 Centimetres	80-85 Centimetres	157 Centimetres	Not applicable
(ii) Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, — Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir	165 Centimetres	78-83 Centimetres	155 Centimetres	Not applicable
(iii) The minimum height for all candidates —belonging to Scheduled Tribal	162.5 Centimetres	76-81 Centimetres	150 Centimetres	Not applicable
(iv) Minimum Height for candidates falling — in the categories of North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, and candidates hailing from Gorkha Territorial	162.5 Centimetres	77-82 Centimetres	152.5 Centimetres	Not applicable
(v) The minimum height for all Scheduled — Tribe candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left Wing Extremism affected districts.	160 Centimetres	77-82 Centimetres	147.5 Centimetres	Not applicable

3. **Weight:** Proportionate to height and age as per medical standards.

4. **Medical Standards:-**

- (a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses.
- (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess high colour vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

5. Must qualify the physical efficiency test and written test.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-</b> 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F.No. I. 12012/10/2016-Org.]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)